

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, अरेराज

Email- rwdwdareraaj1@gmail.com

पत्रांक- 2301

अरेराज- / दिनांक:- 20-10-2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल अरेराज,

सेवा में,

Branch Manager,
Bank Of Baroda,
Motihari

विषय :- संवेदक Dharmendra Kumar Mishra के द्वारा दिये गये FD के सत्यापन के संबंध में।

महाशय ,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक Dharmendra Kumar Mishra को आपके द्वारा निर्गत FD एकरारनामा हेतु समर्पित किया गया है जिसकी छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः उक्त FD को सत्यापन करने की कृपा की जाए।

अनु०- FD No. 12290300034484 Date-22.08.2024 Amt-900000
FD No. 12290300034483 Date-22.08.2024 Amt-800000
FD No. 12290300033347 Date-29.01.2024 Amt-11400000

की छाया प्रति संलग्न।

FDR No - 12290300034484 of
Rs 9.00 lacs dated 22.08.2024,
FDR No - 12290300034483 of
Rs 8.00 lacs dated 22.08.2024 and
FDR No - 12290300033347 of
Rs 11.40 lacs dated 29.01.2024
have been issued by our branch.
The Said FDRs are valid and
genuine.



20/10/2024

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल-अरेराज।

DHARMENDRA KUMAR MISHRA KAUVAHA ARERAJ EAST CHAMPARAN 845401 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	12290300034484
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2208242700
		ग्राहक आईडी क्र./ Customer ID No	050569942
		कमलधार खाता / Linked Operative a/c	12290200000720
		शाखा का नाम/Branch Name	MOTIHARIBIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1		
पैन नंबर / PAN No.	AJXPM4600J	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
900000	22-08-2024	7.25	0 Months 399 Days	25-09-2025	973576


*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज: i) यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देव तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii) कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देव तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 3. फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है। 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/ 15 एच 15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा। 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज: i) रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व खंड करने पर 1% बंड का प्रावधान है, अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ii) रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व खंड करने पर 1.5% बंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए। 7. गैर प्रतिवेद्य जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण को अनुमति नहीं है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause: i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause: i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.
---	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledged to E.E. - RWD ARERAJ
vide Lt. No. Dt.





बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

DHARMENDRA KUMAR MISHRA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	12290300034483
KAUVAHA ARERAJ EAST CHAMPARAN 845401 INDIA		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2208242642
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	058569942
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	12290200000720
		शाखा का नाम/Branch Name	MOTIHARI/BIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	1		
पैन नंबर / PAN No.	AJXPM4600J	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
800000	22-08-2024	7.25	0 Months 399 Days	25-09-2025	865401

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज़: i. यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ii. कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा। 3. फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है। 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। 5. फॉर्म एच केवल बरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा। 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज़: i. रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। ii. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम व्याज का भुगतान किया जाएगा। रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए, जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए। 7. गैर प्रतिदेय जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum 2. Automatic Renewal Clause: i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause: i). Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit. For the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed
--	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

Pledged to E.E. R.W.D. ARERAJ
vide Lt. No. Dt.



Transaction Details

कोस्टेस रीटर के टोल फ्री फोन नं. Toll free Phone Numbers of Contact Centre: 1800 22 33 44, 1800 102 44 55

TERM DEPOSIT RECEIPT

ग्राहक सं. क्रं.

Page 1 of 1



Bank of Baroda

Pledged to E.E. S.P. Divisions, Arrears

प्रधान कार्यालय - माण्डवी, बड़ौदा

Head Office - Mandvi, Baroda

शाखा MOTIHARI, BIHAR

Branch

Received With Thanks From

MR DHARMENDRA KUMAR MISHRA

*M.V. is subject to TDS

परिवर्धन मूल्य ₹ 12,31,632.00

Customer Ref. No. 058569942

जारी तारीख 29-01-2024

तारीख को 29-01-2024

As of Date 29-01-2024

देय तारीख 03-03-2025

Due Date 03-03-2025

जन्म तारीख (यदि नाबालिग) D.O.B. If Minor

खाता क्रं. 12290300033347

A/c No. 12290300033347

रुपये Eleven Lakh Forty Thousand only.

से धन्यवाद सहित प्राप्त

आवधिक जमागति के

योजना अनुसार

As Term Deposit Under

Scheme

रसीद क्रमांक	मूल्य तारीख	देय तारीख	अवधि	व्याज दर	तारीख ₹
Receipt No. TDR2016MM	29-01-2024	03-03-2025	0-120-Me	11.48%	11,48,000.00
0971089			399-Days		

परिचालनार्थ अनुदेश यदि है

Operation Instructions, if any

लिप्पन नोट करने की ता.

लिप्पन रद्द करने की ता.

Nominee Name: SANGEETA MISHRA

नामिनी रजिस्ट्रेशन क्रं 01

Nominee's Reg. No.

अहस्तांतरणीय

NON-TRANSFERABLE

सर्व शिपमेंट पृष्ठ पर देखें SEE CONDITIONS OVERLEAF

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा For BANK OF BARODA

वरिष्ठ प्रबंधक Senior Manager

प्रबंधक Manager

हस्ता. क्रं. SIG. NO.

हस्ता. क्रं. SIG. NO. 109969